

बी.एच.डी.सी.-104 / आधुनिक हिंदी कविता (छायावाद तक)

स्नातक उपाधि प्रतिष्ठा (सी.बी.सी.एस.)  
(बी.ए.ऑनर्स) कोर कार्स

सत्रीय कार्य  
(केवल जनवरी, 2024 सत्र हेतु)

पाठ्यक्रम कोड : बी.एच.डी.सी-104  
आधुनिक हिंदी कविता (छायावाद तक)



मानविकी विद्यापीठ  
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय  
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-110068

## हिन्दी में आधार पाठ्यक्रम सत्रीय कार्य

पाठ्यक्रम कोड : बी.एच.डी.सी.-104 / BAHDH

प्रिय छात्र/छात्राओ!

'आधुनिक हिंदी कविता' पाठ्यक्रम में आपको एक सत्रीय कार्य करना है। यह सत्रीय कार्य शिक्षक जाँच सत्रीय कार्य (टी.एम.ए.) है। सत्रीय कार्य के लिए 100 अंक निर्धारित किये गये हैं। उद्देश्य : सत्रीय कार्य का मुख्य उद्देश्य यह जाँचना है कि आपने पाठ्य सामग्री को कितना समझा है और आप स्वयं उसे अपने शब्दों में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। उद्देश्य यह भी है कि अध्ययन के दौरान जो कुछ आपने सीखा और समझा है उसे आलोचनात्मक ढंग से प्रस्तुत कर सकें।

**निर्देश : सत्रीय कार्य आरंभ करने से पूर्व निम्नलिखित बातों को ध्यान से पढ़िए :**

1. ऐच्छिक पाठ्यक्रम के लिए कार्यक्रम दर्शिका में दिए गए विस्तृत निर्देशों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए।
2. अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पहले पृष्ठ के दाएँ सिरे पर अनुक्रमांक, नाम, पूरा पता और दिनांक लिखिए।
3. अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के प्रथम पृष्ठ के मध्य भाग में पाठ्यक्रम का शीर्षक, सत्रीय कार्य संख्या और अपने अध्ययन केन्द्र का उल्लेख कीजिए।
4. उत्तर पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ निम्न प्रकार से शुरू होगा :

अनुक्रमांक : .....

नाम : .....

पता : .....

.....

पाठ्यक्रम का नाम/कोड : .....

सत्रीय कार्य कोड : .....

अध्ययन केन्द्र का नाम/कोड : .....

दिनांक : .....

5. उत्तर के लिए केवल फुलस्केप के आकार के कागज़ का इस्तेमाल करें और उन कागज़ों को अच्छी तरह से बाँध लें।
6. प्रत्येक उत्तर के पहले प्रश्न संख्या अवश्य लिखें और अपनी ही लिखावट में उत्तर दें।
7. सत्रीय कार्य पूरा करके जाँच के लिए अपने अध्ययन केन्द्र के संयोजक (Coordinator) के पास निर्धारित तिथि तक अवश्य जमा करा दें।

## सत्रीय कार्य जमा करने की अंतिम तिथि :

जनवरी 2024 सत्र के लिए : 31 अक्टूबर, 2024

### सत्रीय कार्य के लिए आवश्यक निर्देश

सत्रीय कार्य के तीन खंड हैं और उसमें तीन तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। उत्तर देने के लिए आप निम्नलिखित विधि से तैयारी करेंगे तो आपके लिए लाभप्रद होगा :

उत्तर देने के लिए आप निम्नलिखित विधि से तैयारी करेंगे तो आपके लिए लाभप्रद होगा :

1. **अध्ययन** : सबसे पहले सत्रीय कार्य को ध्यान से पढ़िए। फिर इससे संबंधित इकाइयों का अध्ययन कीजिए। अंत में प्रत्येक प्रश्न के संबंध में सभी खास बातें नोट कर लीजिए और उन्हें तार्किक ढंग से पुनर्व्यवस्थित कीजिए।
2. **अभ्यास** : अपने उत्तर का प्रारूप लिखने से पूर्व नोट की गई बातों पर विचार कीजिए। निबंधात्मक या टिप्पणीपरक प्रश्नों में आरंभ और उपसंहार का विशेष ध्यान दीजिए। उत्तर के आरंभिक अंश में प्रश्न की संक्षिप्त व्याख्या और अपने उत्तर की दिशा का संकेत अवश्य दे देना चाहिए। मध्य भाग में आप उत्तर का मुख्य भाग आवश्यक विस्तार के साथ क्रमबद्ध और तार्किक ढंग से प्रस्तुत करें। उपसंहार में उत्तर का सार देना चाहिए।

यह सुनिश्चित कर लीजिए कि :

क) आपका उत्तर तार्किक और सुसंगत हो,

ख) वाक्यों और अनुच्छेदों (Paragraphs) के बीच स्पष्ट क्रमबद्धता हो,

ग) उत्तर सही ढंग से लिखा गया हो तथा जो आपकी अभिव्यक्ति, शैली और प्रस्तुति के पूर्णतया अनुकूल हो।

घ) उत्तर प्रश्न में निर्धारित शब्दों से अधिक लंबा न हो, और

ड) आपके लेखन में भाषागत त्रुटियाँ न हों, विशेष रूप से मात्रा और व्याकरण संबंधी गलतियों से बचें

1. **प्रस्तुति** : जब आप अपने उत्तर से पूर्णतया संतुष्ट हो जाएँ तो उसको साफ और सुंदर अक्षरों में उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए तथा जिन बातों पर आप ज़ोर देना चाहते हैं उन्हें रेखांकित कर दीजिए।

2. **विशेष** : अपने उत्तर की फोटो प्रति/कार्बन प्रति अपने पास अवश्य रखें।

शुभकामनाओं सहित!

**नोट** : याद रखें कि विश्वविद्यालय के नए नियमानुसार परीक्षा में बैठने से पूर्व सत्रीय कार्य जमा कराना अनिवार्य है अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सत्रीय कार्य  
(संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित)

पाठ्यक्रम कोड : बी.एच.डी.सी.-104 / BAHDH  
सत्रीय कार्य कोड : बी.एच.डी.सी.-104 / जनवरी 2024  
कुल अंक : 100

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

खंड – क

निम्नलिखित पद्यांशों की ससंदर्भ व्याख्या कीजिये :

10× 4=40

1. नैना वह छवि नाहिन भूलै  
दया भरी चहुँ दिसि की चितवनि नैन कमल दल फूले  
वह आवनि वह हंसनि छबीली वह मुस्कनि चित चोरे  
वह बतरानि मुरलि हरि की वह देखन चहुँ कोरे  
वह धीरी गति कमल फिरावन कर लै गायन पाछै  
वह बीरी मुख वेनु बजावति पीत पिछौरी काछे  
पर बस भए फिरत है नैना एक छन टरत न टारे  
“हरीचंद” ऐसी छवि निरखत तन मन धन सब हारे।
2. औरों के हाथों नहीं यहां पलती हूँ  
अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ  
श्रमवारि बिन्दु फल स्वास्थ्य मुक्ति फलती हूँ  
अपने अंचल से व्यजन आप झलती हूँ  
तनु-लता-सफलता- स्वादु आज ही लाया  
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।
3. पंथ होने दो अपरिचित  
पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला!  
घेर ले छाया अमा बन,  
आज कज्जल-अश्रुओं में रिमझिम ले यह घिरा घन,  
और होंगे नयन सूखे,  
तिल बुझे औ' पलक रूखे,  
आर्द्र चितवन में यहाँ  
शत विद्युतों में दीप खेला!  
अन्य होंगे चरण हारे,  
और हैं जो लौटते, दे शूल को संकल्प सारे,  
दुखव्रती निर्माण उन्मद,  
यह अमरता नापते पद,  
बाँध देंगे अंक-संसृति

से तिमिर में स्वर्ण बेला!

4. स्तब्ध ज्योत्स्ना में जब संसार  
चकित रहता शिशु—सा नादान  
विश्व के पलकों पर सुकुमार  
विचरते हैं जब स्वप्न अजान  
न जाने, नक्षत्रों से कौन  
निमंत्रण देता मुझको मौन  
सघन मेघों का भीमाकाश  
गरजता है जब तमसाकार  
दीर्घ भरता समीर निःश्वास  
प्रखर झरती जब पावस धार  
न जाने, तपक तड़ित में कौन  
मुझे इंगित करता तब मौन  
देख वसुधा का यौवन भार  
गूँज उठता है जब मधुमास  
विधुर उर के—से मृदु उद्गार।

### खंड —ख

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए :

10× 4=40

5. भारतेंदु युगीन कविता की नवीन प्रवृत्तियों को रेखांकित करते हुए उस युग के प्रमुख कवियों का परिचय भी दीजिए।  
6. द्विवेदी युगीन काव्य के अभिव्यंजना शिल्प को रेखांकित कीजिए।  
7. छायावाद की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुए उसके प्रारंभ की चर्चा कीजिए।  
8. निराला काव्य की अर्न्तवस्तु को स्पष्ट कीजिए।

### खंड —ग

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए :

5× 4=20

9. छायावाद के प्रमुख कवियों के कृतित्व का परिचय दीजिए।  
10. मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में अभिव्यक्त राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डालिए।  
11. पंत के काव्य शिल्प की संक्षिप्त चर्चा कीजिए।  
12. महादेवी वर्मा की बिंब योजना पर प्रकाश डालिए।